

सेवा में : समस्त राज्य निदेशक, नेयुकेस

विषय: - एनवाईसी के चयन हेतु स्वीकृति।

महोदय/महोदया ,

वर्ष 2021-22 के लिए एनवाईसी की चयन मार्गनिर्देशिका (अनुबंध-ए) के अनुसार राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति की सूचना प्रेषित की जाती है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एनवाईसी की चयन मार्ग निर्देशिका में प्रदान की गई अनुमोदित नमूना प्रति के अनुसार विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाता है। तथापि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्रत्येक जिला स्तरीय एनवाईसी चयन समिति में नामितों की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद, डीवाईओ को एनवाईसी के चयन हेतु साक्षात्कार की तारीख तय करने के लिए फाइल को डीएम / डीसी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

तदनुसार, कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित समय सारणी का अनुपालन किया जाए।

| क्रसं | गतिविधि | समय सारणी |
|-------|---|--------------------------|
| 1 | विज्ञापन जारी करना | 5 फरवरी 2021 |
| 2 | आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - ऑनलाइन छंट्टाई / अनुरोध पत्र की स्क्रीनिंग डीएम/ डीसी को अनुरोध पत्र (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से एनवाईसी चयन समिति में नामितों की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद) | 20 फरवरी 2021 |
| 3 | साक्षात्कार के लिए चयन समिति के बैठक की तारीख संबंधित डीएम / डीसी की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी | 25 फरवरी से 8 मार्च 2021 |
| 4 | परिणाम की घोषणा | 15 मार्च, 2021 तक |
| 5 | नव तैनात स्वयंसेवकों की योगदान आख्या की तिथि और ऑनलाइन पंजीकरण | 1 अप्रैल, 2021 |

स्पष्टता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

- यह वर्ष 2021-22 के लिए एनवाईसी का चयन होगा।
- आयु की गणना कट ऑफ डेट यानी 1-4-2021 के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि एनवाईसी चयन मार्गनिर्देशिक (अनुलग्नक- A) में वर्णित है।

- जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एनवाईवी के चयन की समय सीमा का बहुत सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के लिए तारीख तय करने, चयन समिति की कार्यवाही की स्वीकृति और स्वयंसेवकों की चयन सूची आदि के लिए डीवाईओ को फाइल स्वयं डीएम/ डीसी के पास लेकर जाना चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि इस तरह की फाइलें सामान्य रूप से दैनिक प्रक्रिया में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए जिसके कारण जल्दी निर्णय लेना संभव नहीं होगा।
- सभी संबन्धित राज्य निदेशकों से अनुरोध है कि वे संबन्धित डीवाईओ को 10 फरवरी 20121 से पहले, बिना चूक/देरी किए एनवाईवी चयन संबंधी फ़ाइल डीएम/ डीसी को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करें। हालांकि, इस प्रक्रिया को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्रत्येक जिला स्तरीय एनवाईवी चयन समिति में नामितों की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद ही आरंभ किया जाना है।
- सभी डीवाईओ को एनवाईवी साक्षात्कार की तारीख के बारे में लिखित रूप में संबंधित नामित सदस्यों को सूचित करना होगा और नेयुकेस और एनवाईसी योजना के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी।
- राज्य निदेशक को डीवाईओ को निर्देशित करना चाहिए कि वह निकटवर्ती गैर नेयुके जिलों में भी संबन्धित डीएम/डीसी के परामर्श के साथ एनवाईवी चयन प्रक्रिया शुरू करें।
- आपके राज्य के एनवाईवी चयन की स्थिति को गूगल शीट पर दैनिक रूप से अपडेट किया जाए जिसे आपकी ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से अग्रेषित किया गया है।
- सभी संबन्धित राज्य निदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मामले पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
यह पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार सम्पन्न किया जाए।

भवदीय

(डॉ एमपी गुप्ता)
निदेशक (कार्यक्रम एवं एनवाईसी)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:

- पीपीएस(युवा कार्यक्रम) संयुक्त सचिव -, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

- निजी सचिव - महानिदेशक, नेयुकेस
- उप सचिव (नेयुकेस), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- राज्य निदेशक, वेतन एवं लेखा कार्यालय से अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रत्येक केंद्र को रु10,000 की राशि जारी करने का कष्ट करें।